

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 379]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 15 सितम्बर 2015—भाद्र 24, शक 1937

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

शोक प्रस्ताव

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2015

क्र. एफ 8-6-2015-एक-4.—माननीय श्री जगन्नाथ सिंह, भूतपूर्व मंत्री के निधन पर मंत्रि-परिषद् ने गहन शोक व्यक्त किया तथा एक मिनट का मौन धारण कर, दिवंगत आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की.

संजय कुमार मिश्र, उपसचिव.